

ग्राम पंचायत शिमला पिस्तौर झमझोर फार्म

विकास खण्ड रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

बेटी बचाओ
प्रधान
8171131400
9837343471


पिआस : ग्राम-शिमला पिस्तौर
पोस्ट लालपुर, विकास खण्ड, उत्तराखण्ड
(ऊधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड, पिन-261112


पत्रांक.....

दिनांक 18/09/2021

प्रमाणित किया जाता है, कि महर्षि विद्या मंदिर किच्का रोड शिमला पिस्तौर में शुद्ध पेय जल की समुचित व्यवस्था है, जहाँ को शुद्ध पेय जल मिले इसलिये जल शुद्धिकरण के लिये आर.ओ भी लगाया हुआ है, सरकारी हैंडपम्प द्वारा बच्चों को पीने के पानी की भरपूर व्यवस्था है, विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आरि-उत्तम है, विद्यालय नारों ओर से खुला हुआ पेड़-पौधों से युक्त है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिये अनुकूल है, विद्यालय में जल-निकासी की भी उचित व्यवस्था है,

CHANDR Digitally signed
by CHANDRA
A DEO DEO SHARMA
SHARMA Date: 2021.09.20
15:57:26 +05'30'


PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
Rudranpur, U.S.Nagar


प्रधान
ग्राम पंचायत-शिमला पिस्तौर
वि.ख.-रुद्रपुर (ऊ.सि.नगर)


PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
Rudranpur, U.S. Nagar



District Level Water Quality Testing and Monitoring Laboratory

Uttarakhand Jal Sansthan, Collectrate Campus, Rudrapur

Ph (O): 059444-250631, E-mail: eeudmujs@gmail.com

Test Report ID: 29/UJS/DLWQTML/2023-24

Dated: 09/01/2024

TEST REPORT

Name and Address of Organization/ Customer	Maharshi Vidya Mandir Rudrapur, Shimla Pistor, Kichha Road Distt-U.S. Nagar (Uttarakhand)		
Product Description (Surface Water/ Ground Water/ Drinking Water)	Drinking Water	Sample Description	One Water Sample submitted from School Campus Handpump
Reference Sample Identification:	DLWQTML/UJS/MVM-01		Date of Start of Analysis: 02/01/2024
			Date of End of Analysis: 05/01/2024
Date and Time of Sample Received: 02/01/24 & 13:05 PM	Sample Collected by:	customer	

SN	Parameters	Results	Desirable Limit (IS 10500:20 12)	Permissible Limit (IS 10500:2012). in the Absence of alternative source	Std. Test Method
1.	pH at 25°C	7.63	6.5 to 8.5	No Relaxation	IS 3025 (Part 11) 2022. Electrometric method
2.	Total Dissolved Solids (TDS), mg/L, Max	250	500	2000	IS 3025 (Part 16), 2023 Gravimetric Method
3.	Turbidity, NTU, Max	0.61	1	5	IS 3025 (Part 10), 2023 Nephelometric Method
4.	Total Alkalinity (as CaCO ₃), mg/L, Max	151	200	600	IS 3025 (Part 23), 2023 Titrimetric Method
5.	Total Hardness (as CaCO ₃), mg/L, Max	178	200	600	IS 3025 (Part 21), 2009 RA:2019. EDTA Titrimetric Method
6.	Calcium, mg/L, Max	39.2	75	200	IS 3025 (Part 40), 2023. EDTA Titrimetric Method
7.	Magnesium, mg/L, Max	19.44	30	100	APHA 24 th -3500-Mg Method B:2023 (Calculation Method)
8.	Odour	Agreeable	Agreeable	Agreeable	IS 3025 (Part 5) : 2022
9.	Chloride, mg/L, Max	12.98	250	1000	IS 3025 (Part 32), 2019 Argentometric Method
10.	Colour, Hazen	Less than 01	5	15	IS 3025 (Part 4): 2021 Platinum Cobalt (Visual Comparison)

1. The results listed refer only to tested sample and applicable parameters.
2. This certificate is not to be reproduced wholly, or in parts promotional publicity or legal purpose without permission of authority of testing laboratory.
3. The samples will be destroyed after fifteen days from the date of issue of test certificate, unless otherwise agreed with customer.
4. Result apply to the sample as received.
5. The Laboratory is responsible for all the information provided in the report, except when information is provided by the customer.

[Signature]
Review and Authorized By
Authorised Signatory
District Water Quality Testing
Monitoring Laboratory
Uttarakhand Jal Sansthan, U.S. Nagar

End of Report